

3/2018 (2)

1. Who was the writer of 'Desan Mein Des Haryana'?
 - (A) Lakhamichand
 - (B) Uday Bhanu Hams
 - (C) Dayachand Mayna
 - (D) None of the above
2. Biggest State of India in terms of area is
 - (A) Maharashtra (B) U.P.
 - (C) Rajasthan (D) None of the above
3. The amendments which have created uniformity in the structures of Panchayath Raj and Nagarapalika institution across the country are
 - (A) 74 and 77 (B) 73 and 74
 - (C) 76 and 42 (D) 21 and 61
4. Internal communication within Institutions is done through
 - (A) WAN (B) LAN
 - (C) MMS (D) EBB
5. Select the word which is least like the other words in the group.
 - (A) Othello (B) King Lear
 - (C) Oliver Twist (D) Macbeth
6. Gurudwara Dhamtan Sahib was built in the memory of
 - (A) Guru Gobind Singh
 - (B) Guru Nanak
 - (C) Guru Tegh Bahadur
 - (D) None of the above
7. In front of a concave mirror, an object is placed at a distance d_1 from the focus and the real image is formed at a distance d_2 from the focus. Then the focal length of the mirror is
 - (A) $\sqrt{d_1 d_2}$
 - (B) $d_1 d_2$
 - (C) $\frac{(d_1 + d_2)}{2}$
 - (D) $\sqrt{\frac{d_1}{d_2}}$

1. 'देसन में देस हरियाणा' के लेखक कौन थे ?
 - (A) लखमीचंद
 - (B) उदय भानु हंस
 - (C) दयाचंद मायना
 - (D) उक्त में से कोई नहीं
2. क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का बृहत्तम राज्य है
 - (A) महाराष्ट्र (B) यू.पी.
 - (C) राजस्थान (D) उक्त में से कोई नहीं
3. पूरे राष्ट्र में पंचायत राज और नगरपालिका संस्थाओं के संरचनाओं में समानता लानेवाला संशोधन है
 - (A) 74 और 77 (B) 73 और 74
 - (C) 76 और 42 (D) 21 और 61
4. संस्थाओं के भीतर आंतरिक संप्रेषण _____ के माध्यम से किया जाता है।
 - (A) WAN (B) LAN
 - (C) MMS (D) EBB
5. वह शब्द चुनिए जो समूह में अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है।
 - (A) ओथेल्लो (B) किंग लीयर
 - (C) ओलिवर ट्रिवस्ट (D) मैकवेथ
6. गुरुद्वारा धमतान साहिब _____ की स्मृति में बनाया गया।
 - (A) गुरु गोविंद सिंह
 - (B) गुरु नानक
 - (C) गुरु तेग बहादुर
 - (D) उक्त में से कोई नहीं
7. एक अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु फोकस से d_1 दूरी पर रखी गई है और वास्तविक प्रतिबिंब d_2 दूरी पर बनता है। तो दर्पण की फोकल लंबाई है
 - (A) $\sqrt{d_1 d_2}$
 - (B) $d_1 d_2$
 - (C) $\frac{(d_1 + d_2)}{2}$
 - (D) $\sqrt{\frac{d_1}{d_2}}$

- 8.** Which of the following States has a separate Constitution ?
 (A) Jammu and Kashmir
 (B) Nagaland
 (C) Karnataka
 (D) West Bengal
- 9.** Which of the following is not a world heritage site in India ?
 (A) Ahmedabad city
 (B) Hampi group of monuments
 (C) Beluru-Halebeedu sites
 (D) None of the above
- 10.** Phalgu fest is held in Faral village on
 (A) Nirjal Ekadashi
 (B) Somavati Amavasya
 (C) Kartik Purnima
 (D) None of the above
- 11.** Who is the current Speaker of Haryana Legislative Assembly ?
 (A) Abhay Singh Chautala
 (B) Manohar Lal Khattar
 (C) Kanwar Pal Gujjar
 (D) Santosh Yadav
- 12.** _____ represents billion characters.
 (A) Megabytes (B) Kilobytes
 (C) Terabytes (D) Gigabytes
- 13.** Baisakhi is usually celebrated on
 (A) 14th of April (B) 25th of April
 (C) 1st May (D) 31st December
- 14.** In a survey of 400 people, 100 people like Apple juice, 150 like Orange juice and 75 like both. The number of people who neither like Apple nor Orange is
 (A) 100 (B) 250
 (C) 175 (D) 225
- 15.** The person who is unanimously regarded as the founder of Modern China.
 (A) Sun-Yat-Sen (B) Guomindang
 (C) Mao-Zedong (D) Deng Xiaoping
- 8.** निम्नलिखित में से किस राज्य का निजी संविधान है ?
 (A) जम्मू और कश्मीर
 (B) नागालैंड
 (C) कर्नाटक
 (D) पश्चिम बंगाल
- 9.** निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में एक विश्व विरासत स्थल नहीं है ?
 (A) अहमदाबाद नगर
 (B) स्मारकों का हंपी समूह
 (C) बेलूर - हलेबीडू स्थल
 (D) उक्त में से कोई नहीं
- 10.** फरल ग्राम में फाल्गु उत्सव _____ पर होता है।
 (A) निर्जल एकादशी
 (B) सोमवरी अमावस्या
 (C) कार्तिक पूर्णिमा
 (D) उक्त में से कोई नहीं
- 11.** हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है ?
 (A) अमर सिंह चौटाला
 (B) मनोहर लाल खट्टर
 (C) कंवर पाल गुज्जर
 (D) संतोष यादव
- 12.** _____ बिलियन केरेक्टर्स को दर्शाता है।
 (A) मेगाबाइट्स (B) किलोबाइट्स
 (C) टेराबाइट्स (D) गिगाबाइट्स
- 13.** बैसाखी सामान्यतः _____ को मनाते हैं।
 (A) 14 अप्रैल (B) 25 अप्रैल
 (C) 1 मई (D) 31 दिसंबर
- 14.** 400 लोगों के एक सर्वेक्षण में, 100 लोगों को सेब का रस पसंद है, 150 को नारंगी का रस पसंद है और 75 को दोनों का रस पसंद है। न तो सेब, नहीं नारंगी का रस पसंद करने वाले लोगों की संख्या है
 (A) 100 (B) 250
 (C) 175 (D) 225
- 15.** वह व्यक्ति जिसे सर्वमान्यता से आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है
 (A) सन-यत-सेन (B) गौमिनड़ेग
 (C) माओ-जिंडांग (D) डेंग जियाओपिंग

23. Complete the analogous pair.
Bird : Fish :: Aeroplane : ?
 (A) Submarine (B) Ship
 (C) Boat (D) Crocodile
24. Two water taps together can fill a tank in $9\frac{3}{8}$ hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time taken by the tap with smaller diameter to fill the tank separately.
 (A) 25 hrs. (B) 20 hrs.
 (C) 15 hrs. (D) 18 hrs.
25. _____ is a folklore Museum situated in Gurugram.
 (A) Sri Krishna Museum
 (B) Jahaj Kothi Zonal Museum
 (C) Urusvati Museum
 (D) Dharohar Museum
26. The countries who have been considered as the founding members of ASEAN, are
 (A) India, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand
 (B) India, Malaysia, Philippines, Singapore and Nepal
 (C) Indonesia, Malaysia, Nepal, Singapore and Thailand
 (D) Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand
27. _____ is the current Chairman of Haryana Public Service Commission.
 (A) Manbir Singh Bhadana
 (B) Narendra Singh Tomar
 (C) Ajay Sura
 (D) None of the above
28. If $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{100} = a+ib$, then (a, b) =
 (A) (-1, 0) (B) (0, -1)
 (C) (1, 1) (D) (1, 0)
23. समरूपता युग्म पूर्ण करें।
 पक्षी : मछली :: हवाई जहाज : ?
 (A) पनडुब्बी (B) जहाज
 (C) नाव (D) मगरमच्छ
24. दो पानी के नल एक टंकी को $9\frac{3}{8}$ घंटों में भर सकते हैं। टंकी को अलग से भरने के लिए बड़े व्यास वाला नल छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटे कम लेता है। टंकी को अलग से भरने के लिए छोटे व्यास वाले नल ढारा लिया जाने वाला समय ज्ञात करें।
 (A) 25 घंटे (B) 20 घंटे
 (C) 15 घंटे (D) 18 घंटे
25. _____ गुरुग्राम में स्थित एक लोक-कथा संग्रहालय है।
 (A) श्री कृष्ण संग्रहालय
 (B) जहाज कोठी मन्डलीय संग्रहालय
 (C) उरुस्वती संग्रहालय
 (D) धरोहर संग्रहालय
26. वह देश जिन्हें ASEAN के संस्थापक सदस्यों के रूप में जाना जाता है
 (A) भारत, मलेशिया, फिलीपाइन्स, सिंगापूर और थायलंड
 (B) भारत, मलेशिया, फिलीपाइन्स, सिंगापूर और नेपाल
 (C) इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, सिंगापूर और थायलंड
 (D) इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन्स, सिंगापूर और थायलंड
27. हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है।
 (A) मनबीर सिंह भडाना
 (B) नरेंद्र सिंह तोमर
 (C) अजय सूरा
 (D) उक्त में से कोई नहीं
28. यदि $\left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{100} = a+ib$ है, तो (a, b) =
 (A) (-1, 0) (B) (0, -1)
 (C) (1, 1) (D) (1, 0)

3/2018 (2)

37. Co-operative farming become more successful in
(A) Denmark (B) Australia
(C) USA (D) India

38. Number of banks nationalized since 1969 is
(A) 18 (B) 19
(C) 14 (D) None of the above

39. Who is empowered to suspend the operation of Fundamental Rights ?
(A) Parliament (B) Supreme Court
(C) President (D) Prime Minister

40. Kalpana Chawla, the first woman of Indian origin to go to space was born in this place
(A) Karnal (B) Hisar
(C) Kurukshetra (D) Panipat

41. If $x, 2y, 3z$ are in A.P., where x, y, z are distinct number and are in G.P., then the common ratio of the G.P. is
(A) 3 (B) $\frac{1}{3}$
(C) 2 (D) $\frac{1}{2}$

42. This district of Haryana has highest number of Vidhan Sabha constituencies
(A) Gurugram (B) Panipat
(C) Hisar (D) Yamunanagar

43. Which of the following do you feel are compatible with the idea of secularism ?
(A) Recognition of State religion
(B) Domination of one religion
(C) Equal State to support all religions
(D) None of the above

44. Recently Central Government released UMANG app, it is for
(A) Online banking
(B) Single window platform for all e-Govt Services
(C) Registering child sexual abuse cases
(D) None of the above

3/2018 (2)

37. सहकारी कृषि _____ में बहुत सफल हुई है।
 (A) डेन्मार्क (B) ऑस्ट्रेलिया
 (C) यू.एस.ए. (D) भारत

38. 1969 के बाद से राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या है
 (A) 18 (B) 19
 (C) 14 (D) उक्त में से कोई नहीं

39. मौलिक अधिकारों के संचालन को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है ?
 (A) संसद (B) सर्वोच्च न्यायालय
 (C) राष्ट्रपति (D) प्रधानमंत्री

40. भारतीय मूल की अंतरिक्ष में जानेवाली पहली महिला कल्पना चावला इस स्थान पर जन्मी थी
 (A) करनाल (B) हिसार
 (C) कुरुक्षेत्र (D) पानीपत

41. यदि $x, 2y, 3z$ समांतर श्रेणी में है, जहाँ x, y, z भिन्न संख्याएँ हैं और ज्यामितीय श्रेणी में हैं; तो ज्यामितीय श्रेणी का सामान्य अनुपात है
 (A) 3 (B) $\frac{1}{3}$
 (C) 2 (D) $\frac{1}{2}$

42. हरियाणा के इस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव केंद्र हैं
 (A) गुरुग्राम (B) पानीपत
 (C) हिसार (D) यमुनानगर

43. धर्मनियोगिता की धारणा के साथ आपको निम्नलिखित में से कौन-सा सुसंगत लगता है ?
 (A) राज्य धर्म का स्वीकार
 (B) एक धर्म का प्रभुत्व
 (C) सभी धर्मों का समर्थन करनेवाला समान राज्य
 (D) उक्त में से कोई नहीं

44. हाल ही में, केंद्र सरकार ने 'उमंग' अंप जारी किया है, यह _____ के लिए है।
 (A) ऑनलाइन बैंकिंग
 (B) सभी इ-गवर्नमेंट सेवाओं हेतु एकल खिड़की प्लैटफॉर्म
 (C) बाल यौन उत्पीड़न मामलों का पंजीकरण करना
 (D) उक्त में से कोई नहीं

51. The interaction between sea anemone that has stinging tentacles and the clown fish that lives among them, is an example for
 (A) Mutualism (B) Amensalism
 (C) Commensalism (D) Parasitism

'Paw' is related to 'Cat' in the same way
 'Hoot' is related to
 (A) Horse (B) Lamb
 (C) Elephant (D) Lion

Shivalik hills are present in the _____ part of Haryana.
 (A) West (B) East
 (C) North-east (D) South-west

54. Which of the following is a floored division in python 3.0 ?
 (A) / (B) //
 (C) % (D) •

55. Value of k in the quadratic equation $2x^2 + kx + 3 = 0$ so that it has 2 equal roots is
 (A) ± 4 (B) $\pm 2\sqrt{6}$
 (C) ± 3 (D) None

56. Bhagwat Dayal Sharma was representing _____ constituency when he became the first CM of Haryana.
 (A) Bhiwani (B) Tosham
 (C) Pataudi (D) Jhajjar

57. Non-Performing Asset (NPA) which is making headline from past several years, is associated with
 (A) Insurance corporations
 (B) Banking establishments
 (C) Corporate companies
 (D) None of the above

58. The Constitution of India provides reservation of seats for SC and ST in Lok Sabha. Initially it was made for 10 years. Now it has been extended up to 2020. As on 1 September, 2012 the number of seats reserved in Lok Sabha for SC and ST are
 (A) 84 and 47 (B) 38 and 27
 (C) 44 and 37 (D) None of the above

51. वह अन्योन्यक्रिया जो दंश स्पर्शक वाले समुद्री फूल और उनके बीच रहनेवाली क्लोन मछली के मध्य होता है, वह _____ का एक उदाहरण है।
 (A) सहजीविता (B) सामंजस्यता
 (C) सहभोजिता (D) परजीविता
52. 'बिल्ली' से 'पंजा' संबंधित है, उसी प्रकार 'खुर' से संबंधित है।
 (A) घोड़ा (B) मेमना
 (C) हाथी (D) शेर
53. श्रिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के _____ भाग में हैं।
 (A) पश्चिम (B) पूर्व
 (C) उत्तर-पूर्व (D) दक्षिण-पश्चिम
54. निम्नलिखित में से कौन-सा एक पाइथॉन 3.0 में फ्लोरयुक्त विभाजन है ?
 (A) / (B) //
 (C) % (D) •
55. द्विघाती समीकरण $2x^2 + kx + 3 = 0$ में k का मान _____ है, जिससे इसके दो मूल समान होते हैं।
 (A) ± 4 (B) $\pm 2\sqrt{6}$
 (C) ± 3 (D) कोई नहीं
56. जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने, तब वे _____ चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।
 (A) भिवानी (B) तोशाम
 (C) पटौड़ी (D) झज्जर
57. अनार्जक संपत्ति (NPA) जो पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में हैं, वह _____ से जुड़ी है।
 (A) बीमा कॉर्पोरेशन
 (B) बैंकिंग प्रतिष्ठान
 (C) कॉर्पोरेट कंपनियाँ
 (D) उक्त में से कोई नहीं
58. भारतीय संविधान लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। प्रारंभ में इसे 10 वर्ष के लिए बनाया गया था। अब इसे 2020 तक बढ़ा दिया गया है। 1 संटर्चर 2012 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या है
 (A) 84 और 47 (B) 38 और 27
 (C) 44 और 37 (D) उक्त में से कोई नहीं

3/2018 (2)

67. An unsolicited e-mail message sent to many recipients at once is a

- (A) Worm (B) Virus
(C) Threat (D) Spam

68. How many Schedules are there in the Constitution?

- (A) 395 (B) 12
(C) 19 (D) 10

69. Gandhiji began his walking from Sabarmati Ashram towards Dandi on

- (A) 12 March, 1930 (B) 12 March, 1932
(C) 12 April, 1930 (D) 12 March, 1931

70. Honest gold sol is _____ in colour.

- (A) Red (B) Purple
(C) Golden (D) Blue

71. Consider the following statements:

1. Cirrus clouds are formed at high altitude.
2. Cumulus clouds look like cotton wool.
3. Stratus clouds are the layered clouds covering large portion of the sky.
4. Nimbus clouds are black or dark grey.

Identify the correct statements.

- (A) 1, 2 and 3
(B) 2, 3 and 4
(C) Only 3 and 4
(D) All the above

72. This King of Rewari was one of the main leaders of the Indian Rebellion of 1857 in Haryana

- (A) Rao Sukhram
(B) Rao Tularam
(C) Rao Gujarmal Singh
(D) Rao Ruda Singh

73. POP3 and IMAP are e-mail accounts in which

- (A) One automatically gets one's mail everyday
- (B) One has to be connected to the server to read or write one's mail
- (C) One only has to be connected to the server to send and receive e-mail
- (D) One does not need any telephone lines

67. एक बार में कई ग्राहियों को भेजा गया एक अनप्रेक्षित ई-मेल संदेश है

- (A) कृमि (वर्म) (B) वायरस
(C) धमकी (D) स्पैम

68. संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं?

- (A) 395 (B) 12
(C) 19 (D) 10

69. गांधीजी ने _____ को सावरमती आश्रम से दाढ़ी की ओर चलना शुरू किया।

- (A) 12 मार्च, 1930 (B) 12 मार्च, 1932
(C) 12 अप्रैल, 1930 (D) 12 मार्च, 1931

70. बेहतरीन स्वर्ण सोल _____ रंग का होता है।

- (A) लाल (B) गैंगनी
(C) सुनहरी (D) नीला

71. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

1. पक्षाभ मेघ ऊँचाई पर बनते हैं।
2. कपासी मेघ रुई जैसे दिखते हैं।
3. स्तरी मेघ परतदार बादल होते हैं जो आकाश के बहुत भाग को आच्छादित करते हैं।
4. वर्षा मेघ काले या गहरे भूरे होते हैं।

सही कथन पहचानिए।

- (A) 1, 2 और 3
(B) 2, 3 और 4
(C) केवल 3 और 4
(D) उक्त सभी

72. रेवाड़ी का यह राजा हरियाणा में 1857 के भारतीय विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक थे

- (A) राव सुखराम
(B) राव तुलाराम
(C) राव गुजरमल सिंह
(D) राव रुडा सिंह

73. POP3 और IMAP ई-मेल अकाउंट हैं जिनमें

- (A) किसी को उसके मेल प्रतिदिन स्वतः मिल जाती है
- (B) किसी को अपनी मेल पढ़ने और लिखने के लिए सर्वर से जुड़ना पड़ता है
- (C) किसी को केवल ई-मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सर्वर से जुड़ना पड़ता है
- (D) किसी को कोई भी टेलिफोन लाईन की आवश्यकता नहीं पड़ती

74. Biography of Harshavardhana, 'Harshacharita' was written by a sanskrit poet _____ which describes his association with Thanesar.
 (A) Bhasa (B) Kalidasa
 (C) Banabhatta (D) Dandi
75. Human Development Index issued by
 (A) IMF (B) World Bank
 (C) UNDP (D) None of the above
76. _____ is used as a promoter in the synthesis of ammonia by Haber's process.
 (A) Antimony (B) Arsenic
 (C) Molybdenum (D) Iron
77. Haryanvi tradition credits _____ for laying the foundation of the present style of Swang.
 (A) Kishan Lal Bhaat
 (B) Pt. Deepchand
 (C) Dayachand Mayna
 (D) None of the above
78. The 4th term of a G.P. is square of its second term and the first term is -3, then the 7th term of the G.P is
 (A) - 2187 (B) 2187
 (C) 343 (D) - 343
79. Complete the analogy.
 $8 : 28 :: 27 : ?$
 (A) 8 (B) 28
 (C) 64 (D) 65
80. This politician had a rare distinction of serving as Minister in the undivided Punjab, Rajasthan and Haryana
 (A) Bansilal
 (B) Choudhary Tayyab Husain
 (C) Zakir Husain
 (D) Choudhary Yaseen Husain
81. In the sequence of number 5, 8, 13, x, 34, 55, 89, the value of x is
 (A) 20 (B) 21
 (C) 23 (D) 29
74. हर्षवर्धन की जीवनी 'हर्षचरित' एक संस्कृत कवि द्वारा लिखी गई, जो उसका संबंध थानेसर से वर्णित करती है।
 (A) भास (B) कालिदास
 (C) बाणभट्ट (D) दंडी
75. मानव विकास सूचकांक _____ द्वारा जारी किया जाता है।
 (A) IMF (B) विश्व बैंक
 (C) UNDP (D) उक्त में से कोई नहीं
76. हेबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में _____ एक वर्धक के रूप में प्रयुक्त होता है।
 (A) एंटीमनी (B) आर्सेनिक
 (C) मोलिब्डेनम् (D) लोहा
77. वर्तमान स्वांग शैली की नीव रखने का श्रेय हरियाणवी पंपरा _____ को देती है।
 (A) किशन लाल भाट
 (B) पं. दीपचंद
 (C) दयाचंद मायना
 (D) उक्त में से कोई नहीं
78. एक ज्यामितीय श्रेणी का चौथा पद अपने दूसरे पद का वर्ग है और पहला पद - 3 है, तो ज्यामितीय श्रेणी का 7 वाँ पद है
 (A) - 2187 (B) 2187
 (C) 343 (D) - 343
79. समरूपता पूर्ण कीजिए।
 $8 : 28 :: 27 : ?$
 (A) 8 (B) 28
 (C) 64 (D) 65
80. इस राजनीतिज्ञ को अविभाजित पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त है
 (A) बंसीलाल
 (B) चौधरी तैय्यब हुसैन
 (C) ज़ाकिर हुसैन
 (D) चौधरी यासीन हुसैन
81. संख्याओं 5, 8, 13, x, 34, 55, 89 के क्रम में x का मान है
 (A) 20 (B) 21
 (C) 23 (D) 29

English Language

Fill in the blanks with appropriate article.

89. Tagore was _____ truly great poet.
 (A) a
 (B) No article needed
 (C) the
 (D) an
90. There is not _____ man here who will not support you.
 (A) a
 (B) Not needed
 (C) an
 (D) the

Supply suitable verb in agreement with its subject.

91. The means employed by you _____ sufficient.
 (A) are
 (B) were
 (C) is
 (D) None of the above
92. Sanskrit, as well as Arabic, _____ taught there.
 (A) was
 (B) are
 (C) were
 (D) have

Select the correct expression from the given options and fill in the blanks.

93. He was much _____ by his loss.
 (A) cast away
 (B) cast down
 (C) cast off
 (D) call up
94. A religious hope _____ a man in his trials.
 (A) bears up
 (B) bore away
 (C) bears upon
 (D) bears out

हिन्दी भाषा

95. "हम कलम से लिखते हैं।" इस वाक्य में 'कलम से' कौन-सा कारक है?
 (A) कर्म कारक
 (B) करण कारक
 (C) संबंध कारक
 (D) कर्ता कारक
96. 'डिढ़ोरा पीटना' मुहावरे का अर्थ है
 (A) प्रचार करना
 (B) भाग जाना
 (C) घोखेबाज होना
 (D) मार डालना
97. जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, उसे कौन-सा समास कहते हैं?
 (A) तत्पुरुष
 (B) द्विगु
 (C) द्वन्द्व
 (D) बहुव्रीहि
98. एक + एक = 'एकैक' यह कौन-सी संधि है?
 (A) व्यंजन संधि
 (B) यण संधि
 (C) वृद्धि संधि
 (D) गुण संधि
99. "हम पढ़ते हैं।" इस वाक्य को सामान्य भूतकाल में कहते हैं
 (A) हम पढ़ा
 (B) हम पढ़े
 (C) हम पढ़ेंगे
 (D) हम ने पढ़ा
100. 'लक्षण से मेघनाद मारा गया' यह कौन-सा वाच्य है?
 (A) भाव वाच्य
 (B) कर्म वाच्य
 (C) कर्ता वाच्य
 (D) कोई नहीं